

અનુસૂચિ માનોજા

1983
=

1987 - Our Common
Future

}

Resource-use

जीवन पर्याप्ति समाज




Present Generation = Future Generation

Resource-use

संरक्षण

संरक्षण



$G\text{N}(H) = \text{Gross National Happiness}$

The diagram illustrates the concept of Gross National Happiness (GNH). It features two circles connected by a vertical line. The top circle contains the letters 'GNH' and has a horizontal line extending from its right side. The bottom circle contains the letter 'P' and has an upward-pointing arrow. To the right of this diagram, the word 'Gross' is written above the word 'National'. Below 'National', the words 'Happiness' and 'GNH' are enclosed within a large oval.


Pollution



O

X

PCI



Carbon Tax કાર્બન ટેક -

A tax to be imposed on the production/consumption of those goods which emit quite higher level of CO₂.

ટેક કર જો CO₂ નું ઉત્તેજિત
ઉત્તેજિત કરને વાતી એન્ટ્રેડીનું ફેસિલિટી
ન્યૂનત્વ પર નાના જાતા નું |

The carbon tax is mostly imposed on fossil fuels like coal, petrol, diesel & so on.

कार्बन टैक्स मुख्य रूप से
शीघ्रता के लिए पर लगाया जाता
है जैसे कि कामला, पेट्रोल, डीजल
आदि।

on petrol diesel etc.

भारत में इन्हें एक और कोड का नाम है

वही है लोकल नियन्त्रण कर नियंत्रण

का नाम यह भी तरह काम करता है -

(i) लोकल डीजल आयुर्वेद

शोधीय उपाद शिल्प |

(ii) लोकल डीजल उत्पादन दर

राज्य बिनी दर / दर |

Carbon credit कार्बन क्रेडिट

The efforts of absorbing
one tonne of CO₂ from
the atmosphere is called
Carbon credit.

पर्यावरण एवं सत्रा CO₂ को
अवशोषित करने हेतु प्रयत्नी
कार्बन क्रेडिट तथा है।

Carbon credits can be

$$\text{CO}_2 \text{ का } \frac{\text{कुल}}{\text{उत्तरी अमेरिका}} - \text{CO}_2 \text{ का } \frac{\text{कुल}}{\text{भारत}} = 0$$


Targets $\overline{2050}$ -

- (i) India - 2070
- (ii) World - 2050
- (iii) Indian Railways - 2030


मुख्य देशों का नाम - कार्बन-रिसाव
की देशों के लिए प्रतीकात्मक मार |

BASIC राष्ट्र इसका विरोध-

कर रहे हैं।



Carbon Leakage



Note

Carbon Burden Adjustment
Mechanism (CBAM)

के बारे में यह एक E.U.
सिवा लाना उपर्युक्त है।

An act in which a company makes a false claim that its products are environmentally sound & safe.

वह फूटा पिछाए जा करनी है कि
उसके उपराद प्रभावों तो हुए हैं लेकि
उन्हें सुरक्षित है।

following concepts -

- (i) Recycling
- (ii) Repair
- (iii) Refurbishment
- (iv) Sharing etc.

so that resources can be better utilised.

इनके अध्ययन से ज्ञान
जो निम्न समस्याओं
पर उत्तरित होती है -

नाकूल लगावनों पर बेचने
उपचार हो रहा।

Linear Economy

Take,


Make

&

Dispose

एक अस्वीकृत सिंचानक्रम |

Diagram -



Human Capital Formation

मानव पूँजी निर्माण

Expenditure on health, education, training, skilling etc. of the people for the purpose of developing them as human resources.

मानव संसाधनों के लिए मो
क्षित व्यय के लिए उपलब्ध
करने वाला व्यवस्था विकास।

एकता उपाय ।

Many a times, the social capital leads to increase in the productivity of a business organisation.

कामः वार समाजिक पूर्ति सामग्रिक

संगठनों की उपायकरण को बढ़ा देती है।

Non-Economic Factors of Economic Dev.

आर्थिक विकास के गैर-आर्थिक कारक



Political
Organisation
राजनीतिक संगठन



Social
Organisation etc
सामाजिक संगठन आदि

GDP = \sum GVA at basic prices

Plus

Net $\boxed{\text{Taxes on Products}}$

↓
Indirect Taxes

Agriculture GVA - X

Industry GVA → Y

Services GVA → Z

\sum GVA